



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082023-248022  
CG-DL-E-11082023-248022

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3433]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2023/श्रावण 20, 1945

No. 3433]

NEW DELHI, FRIDAY AUGUST 11, 2023/SHRAVAN 20, 1945

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2023

का.आ. 3587(अ).— केंद्र सरकार चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 12) के खंड 1 के उप-खंड (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा 11, अगस्त, 2023 को उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की तारीख नियत करती है।

[फा. सं. एम-11013/1/2020-डीओ (एफसी) भाग(2)]

नीरजा शेखर, अपर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2023

S.O. 3587(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Cinematograph (Amendment) Act, 2023 (12 of 2023), the Central Government hereby appoints the 11<sup>th</sup> day of August, 2023 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. M-11013/1/2020-DO(FC)-Part(2)]

NEERJA SEKHAR, Addl. Secy.